

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2016

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/ 033.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने, तारीख 1 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/024 के माध्यम से, "एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड" को मान्यता का नवीकरण प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 के अधीन 3 अक्टूबर, 2015 को प्रारंभ होने वाली और 2 अक्टूबर, 2016 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया था।

"एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड" का नाम 18 अगस्त, 2015 से "मेट्रोपोलिटन क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" हो जाने पर (जैसा कि कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई द्वारा प्रमाणित किया गया), उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम अब "एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर "मेट्रोपोलिटन क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" हो गया है।

राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन. III/4/असा./335]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st January, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/033.—The Securities and Exchange Board of India had, vide notification bearing no. LAD-NRO/GN/2015-16/024 dated October 01, 2015 granted renewal of recognition to “MCX-SX Clearing Corporation Limited” under section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 for a period of one year commencing on the 3rd day of October, 2015 and ending on the 2nd day of October, 2016.

Upon the renaming of “MCX-SX Clearing Corporation Limited” as “Metropolitan Clearing Corporation of India Limited”, as certified by the Registrar of Companies, Mumbai, with effect from the 18th day of August 2015, the name “MCX-SX Clearing Corporation Limited” in the said notification stands substituted with the name “Metropolitan Clearing Corporation of India Limited.”

RAJEEV KUMAR AGARWAL, Whole Time Member

[ADVT- III/4/Exty./335]